

# SHRI JAIN PUBLIC SCHOOL



HOLIDAY HOMEWORK 2020-21

CLASS - II



Dear children,

This is the moment we are called to be our best selves in tune with the vision and mission of others leading a life of patience, empathy and compassion. The virus has prompted all of us to gain a heightened self-awareness. I am sure all of us have been practising social distancing, physical distancing and coming together on social media for mutual morale boosting conversations and sharing. This is the best way to counter the pandemic.

Stay home; Stay safe!

Mrs. Seema Jain  
(Principal)

## ENGLISH

- (i) Write the names of any 10 dry fruits..
- (ii) Make 2 sentences each using magical words- excuse me, sorry, please, thank you.
- (iii) Read lesson 1 and 2 of English A. Find out and note down 10 common nouns and verbs from each lesson.

Use of magic words like excuse me, sorry, thanks, please.

- When asking for something say “Please.”
- When receiving something, say “Thank you.”
- If you need to get somebody’s attention right away, the phrase “excuse me” is the most polite way for you to enter the conversation.
- When you have spent time at your friend’s house, remember to thank his or her parents and for the good time you had there.
- Say 'sorry' to apologize after you have done some wrong.

Be self motivated to used simple words and sentences at home also.  
For example-

- Mummy, can I help you in the kitchen?
- Mummy, can I lay the table today?
- Mummy, should I help you wash the dishes today?
- Papa, can I help you wash the car ?
- Mummy, can I get you a glass of water ?
- Mummy, may I take some more Ice-Cream from the fridge?
- Papa, I’m sorry I was rude to you.
- Papa, please teach me how to ride a bicycle.
- Mummy, can I help you wash and soak the rice ?
- Mummy, should I cut the salad today?
- Didi, can you help me find my English note book?
- Papa, can we go cycling together today?

## HINDI

- (i) अपने घर में उपलब्ध 10 वस्तुएँ चुनकर उनके एकवचन व बहुवचन रचनात्मक तरीके से लिखिए।
- (ii) केटरपिलर का चित्र बनाते हुए 1 से 10 तक गिनती लिखिए (हिन्दी अंको व हिन्दी शब्दों में)



- (iii) तितली का चित्र बनाकर उसमें तीन-तीन समान तुक वाले शब्द लिखिए।
- (iv) मेरी अभिरुचि (बागवानी, चित्रकारी, खेलना आदि) पर दस पंक्तियाँ लिखिए।

## MATHS

Q.1 Write the number names:

- (a) 299 (b) 807  
(c) 685 (d) 152  
(e) 363 (f) 527

Q.2 Write the numbers in expanded form:

- (a) 805 (b) 340  
(c) 748 (d) 999  
(e) 167 (f) 519

Q.3 Fill in the blanks using correct sign  $<$ ,  $>$  or  $=$

- (a) 316 \_\_\_\_\_ 613 (b) 600 \_\_\_\_\_ 599  
(c) 608 \_\_\_\_\_ 806 (d) 718 \_\_\_\_\_ 710  
(e) 77 \_\_\_\_\_ 177 (f) 970 \_\_\_\_\_ 870

Q.4 Rewrite the numbers in ascending order:

- (a) 723, 159, 521, 258, 863 (b) 619, 916, 169, 691, 196

Q.5 Rearrange the digits to form the greatest and smallest number:

- (a) 2, 1, 9 (b) 3, 7, 5  
(c) 9, 0, 8 (d) 9, 5, 6

Q.6 Fill in the blanks:

- (a) The smallest 3 digit number is \_\_\_\_\_
- (b) The greatest 3 digit number is \_\_\_\_\_
- (c) The place value of 5 in 359 is \_\_\_\_\_
- (d) The place value of 1 in 199 is \_\_\_\_\_
- (e) The short form of  $900+9$  is \_\_\_\_\_
- (f)  $4 + 5 + 7 = 7 + 4 +$  \_\_\_\_\_
- (g)  $810 + 1 =$  \_\_\_\_\_
- (h)  $701 + 0 =$  \_\_\_\_\_

Q.7 Add:

- |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|--|-------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|-------|--|--|---|---|---|-------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|-------|---|---|---|--|--|-------|--|--|-------|--|--|
| (a) <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>H</td><td>T</td><td>O</td></tr><tr><td>6</td><td>9</td><td>5</td></tr><tr><td>+</td><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><hr/></td></tr><tr><td colspan="3"><hr/></td></tr></table>  | H | T | O | 6 | 9 | 5 | + | 5 | 0 | 7 |   |   | <hr/> |  |  | <hr/> |  |  | (b) <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>H</td><td>T</td><td>O</td></tr><tr><td>8</td><td>9</td><td>5</td></tr><tr><td>+</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><hr/></td></tr><tr><td colspan="3"><hr/></td></tr></table> | H | T | O  | 8 | 9 | 5 | + | 2 | 5 | 8 |   |   | <hr/> |   |   | <hr/> |  |  | (c) <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>H</td><td>T</td><td>O</td></tr><tr><td>3</td><td>5</td><td>8</td></tr><tr><td>+</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><hr/></td></tr><tr><td colspan="3"><hr/></td></tr></table> | H | T | O     | 3 | 5 | 8  | + | 6 | 8 | 9 |   |   | <hr/> |   |   | <hr/> |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| H  | T | O |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 6  | 9 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| +  | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 7  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| <hr/>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| <hr/>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| H  | T | O |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 8  | 9 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| +  | 2 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| <hr/>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| <hr/>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| H  | T | O |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 3  | 5 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| +  | 6 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 9  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| <hr/>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| <hr/>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| (d) <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>H</td><td>T</td><td>O</td></tr><tr><td>9</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>9</td><td>5</td></tr><tr><td>+</td><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><hr/></td></tr><tr><td colspan="3"><hr/></td></tr></table> | H | T | O | 9 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | + | 2 | 6 | 8     |  |  | <hr/> |  |  | <hr/>   |   |   | (e) <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>H</td><td>T</td><td>O</td></tr><tr><td>5</td><td>7</td><td>6</td></tr><tr><td>9</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>+</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><hr/></td></tr><tr><td colspan="3"><hr/></td></tr></table> | H | T | O | 5 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | +     | 1 | 2 | 5     |  |  | <hr/>   |   |   | <hr/> |   |   | (f) <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>H</td><td>T</td><td>O</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>+</td><td>6</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><hr/></td></tr><tr><td colspan="3"><hr/></td></tr></table> | H | T | O | 3 | 1 | 6 | 2     | 5 | 3 | +     | 6 | 1 | 8 |  |  | <hr/> |  |  | <hr/> |  |  |
| H  | T | O |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 9  | 0 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 2  | 9 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| +  | 2 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| <hr/>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| <hr/>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| H  | T | O |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 5  | 7 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 9  | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| +  | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| <hr/>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| <hr/>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| H  | T | O |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 3  | 1 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 2  | 5 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| +  | 6 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| <hr/>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |
| <hr/>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |       |   |   |   |  |  |       |  |  |       |  |  |

Q.8 Paste your recent photograph. Present the following information beautifully.

Complete the information about yourself in numbers only.

- (a) Letters in my name \_\_\_\_\_
- (b) My age \_\_\_\_\_
- (c) My class \_\_\_\_\_
- (d) My weight \_\_\_\_\_
- (e) Members in my family \_\_\_\_\_
- (f) Number of teeth I have \_\_\_\_\_

(g) My shoe size \_\_\_\_\_

(h) My father's contact number \_\_\_\_\_

(i) My mother's contact number \_\_\_\_\_

## **EVS**

- (i) List any five good food habits.
- (ii) Write examples of energy giving food, body building food and protective food.
- (iii) List names of your family members with relation. Get an appreciation sentence given by them for you.

### **PRACTISE VALUE BASED ACTIVITY**

- Request and help your mother to maintain two dustbins in kitchen green and blue.
- **Green dustbin**- for peels of fruits and vegetables i.e. Biodegradable waste. You can make manure out of this by digging a pit and putting in that or you can give this to herbivorous animals like cow, goat.
- **Blue dustbin**- for other waste like plastic, tin etc i.e non biodegradable waste.
- During this summer season keep one pot on your terrace or verandah of your house filled with water for thirsty birds. Try to fill it every morning. Also observe few birds and write their names in your copy (At least 10).
- You can also click a pic of bird and paste it in your notebook.
- Saving money is a good habit. Try to put few coins in your piggy bank everydy count your coin before you come to school and share information with your teacher about your savings.

### **NOTE**

- Holiday homework for all the subjects must be compiled in one single thin notebook only. Separate the homework of each subject with a plain sheet mentioning the subject on it. Submit your holiday homework when school reopens.
- Periodic test-I marks will be assigned for all the subject on the basis of this holiday assignment.
- Learn all the syllabus covered during online classes and complete your written work. During summer vacation try to speak in English with everyone to enhance your English speaking skill.



## Some useful tips for summer vacation

Some do and don'ts during summer vacation:

### Do's

- ✓ Drink lots of water.
- ✓ Carry a water bottle everywhere you go.
- ✓ Wear light cotton clothes.
- ✓ Have plenty of seasonal fruits like musk-melon, water-melon, orange, cucumber, etc.
- ✓ Drink a glass of buttermilk every meal time.
- ✓ Discover your creativity through Research work sheets.
- ✓ Study for half an hour to one hour everyday.
- ✓ Explore various games.



### Don'ts:

- ✓ Don't be out of house in afternoon sun.
- ✓ Don't have junk food.
- ✓ Don't watch too much TV.
- ✓ Don't waste time in being lazy.
- ✓ Don't dirty your place of living.



*N.B.:- It is a Learning by Doing Process. So we motivate the students to do the assigned project on their own with the help of parents.*